

गुड़ और खांडसारी के भाव

+

* 282. श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 15 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ और खांडसारी के भावों तथा उसके उत्पादन पर नियंत्रण लगाने का इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या चीनी की खपत कम करने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को खांडसारी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के बारे में भी इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योग क्या है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) to (c). Government have not taken any such general decision. The Government of Uttar Pradesh have, however, fixed maximum prices for sale of khandsari and the States importing khandsari from Uttar Pradesh have been asked to arrange sale of imported khandsari at prices in parity with the controlled prices in U.P. The State Governments have also been empowered to license khandsari units and power crushers and to regulate their working in reserved areas of the sugar factories.

श्री बागड़ी : बड़े उद्योगों के बढ़ाव के वास्ते छोटे उद्योगों पर पाबन्दी लगाने से देश में जो छोटे उद्योग हैं वे टूटते हैं और समाजवाद के बिलकुल यह विपरीत बात है हालांकि सरकार बात समाजवाद की करती है । क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि खांडसारी के ऊपर लाइसेंस और पाबन्दी लगाने से किसानों में आम बेचैनी है और

खांडसारी का उद्योग बिलकुल घटता जा रहा है तो क्या सरकार इस पाबन्दी के ऊपर पुनर्बिचार करने जा रही है ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): As far as gur is concerned, we have not placed any restriction either on its movement or on its price. As far as khandsari is concerned, the Uttar Pradesh Government have taken certain measures for the purposes of regulating the production of khandsari. That is all. I do not think that any impediments are placed in the development of these industries.

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी के कारखानदारों को विदेश के अन्दर चीनी भेजने की जहां बदले में एक सहूलियत यह है कि अपना मूल्य वह किसी तरीके से बढ़ाये उस के अलावा भी करोड़ों रुपये सरकार को उन को इसलिए देने पड़ते हैं कि उनको घाटा लगा तो क्या इस किस्म की उमदाद खांडसारी या गुड़ बनाने वालों को भी देने का विचार है ?

Shri C. Subramaniam: Khandsari units are small for which high finances are not required. But to the extent necessary, help is being given for the development of gur industry and also khandsari industry.

Shri K. N. Tiwary: Is it a fact that the price of gur has fallen after removing the zonal system and de-control and, if so, keeping in view the sugar production near about the target for 1964-65, is the Government going to de-control sugar also?

Shri C. Subramania: No, Sir. It is not under our consideration now.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब खांडसारी के भंडारों को सीज किया था उस समय खांडसारी का भाव ७३ रुपये और कुछ आने मन था । अब जब खांडसारी के ऊपर से प्रतिबंध हटना है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीज करने समय कह।

था कि इस से भाव नीचे जायेंगे तो गर्बनमेंट उसे खुद खरीद कर लेगी। अब खांडसारी के भाव २७ रुपये मन आ गये हैं तो उन्होंने खुला कर दिया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक सरकार जो इतना बड़ा आश्वासन देती है कि भाव इससे नीचे गिरने पर वह खुद खरीद कर लेगी लेकिन उस अपने आश्वासन को अमल में नहीं लाती है तो भाव उस से इतने नीचे गिरने का दोष फिर किस के ऊपर रहेगा ? या तो यह करें कि दूसरे राज्यों में जाने की सुविधा करें या फिर उतने भाव में स्वयं सरकार खरीदे। एक आश्वासन देने पर यदि इस तरह से उसे पूरा करने से बचा जायेगा और राजा स्वयं ही अगर अपनी प्रजा के साथ इस प्रकार का न्याय करने लगे तो आखिर किस तरीके से यह काम चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस का बे क्या उत्तर दे सकते हैं ?

Shri C. Subramaniam: It is the U. P. Governments responsibility and I hope the Uttar Pradesh Government will discharge its responsibility. This is not the forum to raise it.

Shri A. P. Jain: Gur and khandsari being substitute products of consumption, may I know whether gur and khandsari come within the ambit of all-India sugar policy and, if so, whether the action taken by the Uttar Pradesh Government is in consonance with the all-India policy or is it otherwise?

Shri C. Subramaniam: As far as khandsari production and consumption are concerned, the major production takes place in Uttar Pradesh and the major consumption also takes place in Uttar Pradesh. That is why we have allowed the Uttar Pradesh Government to control it and to the extent surplus is available for export that is allowed to be exported. There is nothing contrary to the national policy.

Shrimati Sharda Mukerjee: What is the estimated amount of sugarcane which is utilised for gur and khandsari production and may I know if the Government is thinking of having some integrated policy regarding the purchase of sugarcane by the sugar factory owners and the khandsari and gur manufacturers? At present there seems to be a large diversity in prices.

Shri C. Subramaniam: About 30 per cent or a little more than that is utilised for sugar production in the mills. The rest of it is used for the purpose of gur and khandsari manufacture. In certain places, areas are reserved for sugar factories. It is on that basis we also fix the price for sugarcane which would be paid by the sugar factories.

श्री जगदेव सिंह सिद्धावती : आजकल गन्ना पेटा जा रहा है तो उनके यहाँ से जो गुड़ और खांड आती है तो व्यापारी लोग उसका भाव गिराते हैं तो क्या सरकार गुड़ और खांड के भाव व्यापारियों द्वारा कम करने से किसानों को बचायेगी ?

Shri C. Subramaniam: We have notified the minimum price which the farmer should get for his cane. I do not think at any place, the price has come down below this level.

श्री श्रीकार लाल बोरवा : इस वक्त पब्लिक सेक्टर में गुड़ और खांडसारी के कितने कारखाने चल रहे हैं ? क्या इसकी खपत को बढ़ाने के लिए कोई नये कारखाने लगाने का विचार है ; अगर हाँ, तो कहां ?

Shri C. Subramaniam: To my knowledge, there is no public sector factory for the manufacture of gur and khandsari. There might be cooperative sector units on this. There is no proposal to start any unit in the public sector.

Shri S. M. Banerjee: In view of the fact that there is shortage of sugar and that shortage is met with khandsari

sari as substitute, may I know what steps Government propose to take to give more incentive to the khandsari manufacturers?

Shri C. Subramaniam: It is a question of utilising the available cane for the purpose of manufacture of Sugar, Khandsari and Gur. What is the most economical way of utilising the cane has to be decided. The scientific and technical opinion is that sugar manufacture is the best way of utilising the cane because of the various by-products coming out of it. That is why we try to give first priority to the manufacture of sugar. As far as the utilisation of cane for the purpose of manufacturing gur and khandsari also is concerned, because we are not utilising the entire cane for the purpose of manufacturing sugar, we are allowing that and we are giving encouragement to that also.

Shri K. N. Pande: Is it a fact that Government have fixed minimum price for the cane to be supplied to the sugar factory? Have they directed the UP Government to fix a minimum price for the cane which is supplied to khandsari manufacturers?

Shri C. Subramaniam: Till now the prices obtained by the farmers from the khandsari industry is more than the minimum price which has been fixed. Therefore, if such a situation arises, then it will be considered.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उत्तर प्रदेश में खंडसारी 27 रुपये मन बिकती है, यह रुक बना है और यही खंडसारी राजस्थान, गुजरात और अन्य प्रान्तों में साठ, सत्तर रुपये मन के हिसाब से बिक रही है। भावों में इस अन्तर का एक कारण यह है कि जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसके कारण भाव बढ़े हुए हैं। क्या सरकार का विचार इस प्रतिबन्ध को तोड़ने का है, क्योंकि इसी कारण काफी ब्लैक-मार्केटिंग हो रही है ?

Shri C. Subramaniam: The restriction is placed for the purpose of making khandsari sugar available for U.P. consumption. As a matter of fact, the allotment of factory sugar is limited to that extent, because they have got khandsari sugar. It is only that quantity which is available after meeting the consumption needs of U.P. are met which is allowed to be moved out. That is why perhaps, because of the scarcity in other areas, it fetches a higher price.

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब आज गुड़ 27 रुपये मन बिक रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है ? पिछले साल गुजरात में गुड़ अस्सी रुपये मन क्यों बिका है ? गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको अपने कब्जे में करती, जिससे ब्लैक मार्केटिंग न हो ? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या आइन्वेस्टिग है ? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि यह यू० पी० गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय सदस्य जिस गुस्से से सवाल पूछते हैं, उससे डर लगता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को डर क्यों लगता है ? डर तो मुझे लगना चाहिए। सब तरफ की नाराजगी मुझ पर कन्सेन्ट्रेट होती है।

Shri C. Subramaniam: I have stated already that the production of khandsari is mainly consumed within U.P. That is why UP requirements are given first priority and that is why UP Government is allowed to control its production and distribution.

Shrimati Savitri Nigam: Keeping in view the demand of brown sugar in various foreign countries and also the crashing prices of gur and khandsari which it make it difficult for the farmers in the long run, may I know if Government intend to purchase khandsari for export purposes?

Shri C. Subramaniam: No, Sir; there is no such proposal.

श्री काशी राम गुप्त : मंत्री महोदय बार बार यह फरमाते हैं कि यू० पी० के लोगों को मुहैया करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नीति अपनाई है और भारत सरकार भी सम्भवतः उस से स्मृत है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस नीति से वहाँ के किसानों का भाव इतना गिर जायें, उस नीति का पालन करने में भारत सरकार क्यों सत्यता दे रही है और क्यों नहीं उसको रोकती है।

Shri C. Subramaniam: Sir, even now the producers of gur and khand-sari are in a position to pay higher prices than what the sugar factories pay. Therefore, so far as the farmers are concerned there has been no distress in this respect. As a matter of fact, there is a premium for gur and khand-sari. Therefore, there is no question of giving any direction in this respect.

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वैस्टियन—
श्री आर० जी० दुबे ।

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न तो यह था कि भारत सरकार क्यों

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बैठ जायें। अब हम अगले सवाल पर चले गये हैं।

Improved High-Yielding Varieties of Crops

+

283. { **Shri R. G. Dubey:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Shri Brij Raj Singh-Kotah:
Shri S. N. Chaturvedi:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Indian Agricultural Research Institute had developed

high-yield hybrid varieties of maize, jowar, cotton and rust-resistant wheat; and

(b) the steps taken to supply these new varieties to the farmers throughout the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes. Excepting cotton, high-yielding varieties and hybrids of the other crops have been produced at the Indian Agricultural Research Institute.

(b) The seeds of hybrid maize and jowar are multiplied by the National Seeds Corporation. The seeds of wheat varieties, bred at the Indian Agricultural Research Institute, are multiplied both by the Institute and State Departments of Agriculture. The improved seeds, after multiplication are distributed to the farmers.

Shri R. G. Dubey: May I know what exact amount of increase in the yield in respect of various varieties has been found out in the stage of experiment and what is the expectation when actually they are distributed and sown in various areas?

Shri Shahnawaz Khan: It depends on so many factors like irrigation, the fertilizer that you put in, the quality of soil etc. But, generally speaking, as far as hybrid maize is concerned it has secured results between 70 to 80 per cent. The same is the case with sorghum, a variety of jowar. It has also produced very good results.

Shri R. G. Dubey: In view of the fact that in respect of jowar, bajra and other varieties a lot of foodgrain is lost due to rust, may I know whether this institute has been able to devise any rust-resistance element in respect of varieties other than wheat?

Shri Shahnawaz Khan: Jowar and bajra do not have rust. They may have some other diseases. Rust is a problem only in the case of wheat.